



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 138]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मार्च 1, 2001/फाल्गुन 10, 1922

No. 138]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 2001/PHALGUNA 10, 1922

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2001

का. आ. 186 (अ).—केन्द्र सरकार, केशव कमोडिटी एक्सचेंज लि०, दिल्ली द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए अग्रिम संविदा विनियमन अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अंतर्गत दिए गए आवेदन पत्र पर, बायदा बाजार आयोग, मुंबई के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को 1-3-2001 से 28-2-2003 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी शामिल हैं), 2 वर्ष की अवधि के लिए आलू में अग्रिम संविदाओं के संबंध में मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज बायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करेगा।

[मि. सं. 12/3/आई टी/97]

कमल किशोर, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD
AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2001

S.O. 186(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, Mumbai the application for grant of recognition, made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Keshav Commodity Exchange Ltd., Delhi and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in public interest so to do, hereby grants in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a period of two years from 1st March, 2001 to 28th February, 2003 (both days inclusive) in respect of forward contracts in Potatoes.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12/3/IT/97]

KAMAL KISHORE, Economic Adviser.

